



**AI-1188**

**B. Sc. (Part-III)**

**Term End Examination, 2020-21**

**MICROBIOLOGY**

*Paper : Second*

*Time Allowed : Three hours*

*Maximum Marks : 50*

**नोट :** सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**Note :** Attempt all five questions. One question from each unit is compulsory. All questions carry equal marks.

**इकाई-I**

**Unit-I**

1. ऐरोबायोलॉजी क्या है? वायु जनित बैक्टीरिया से होने वाली कोई एक बीमारी का वर्णन कीजिये।

1188

PTO

[ 2 ]

What is Aerobiology? Describe any one air borne bacterial diseases.

अथवा

Or

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (किन्हीं दो)

- (i) ऐरोसोल्स
- (ii) एसिसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी
- (iii) चेचक

Write short notes on : (any two)

- (i) Aerosols
- (ii) Assessment of air quality
- (iii) Small pox

**इकाई-II**

**Unit-II**

2. बायोफर्टीलाइजर्स पर एक लेख लिखिये।

Write an essay on Biofertilizers.

अथवा

Or

1188

सूक्ष्मजीवी अन्तःक्रियाओं पर एक विवरण लिखिये।

Write an account on Microbial Interactions.

### इकाई-III

#### Unit-III

3. स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र पर निबन्ध लिखिये।

Write an essay on types of fresh water ecosystem.

अथवा

Or

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (किन्हीं दो)

(i) सुपोषण

(ii) हेपेटिटिस

(iii) जल की गुणवत्ता

Write short notes on : (any two)

(i) Eutrophication

(ii) Hepatitis

(iii) Potability of water

### इकाई-IV

#### Unit-IV

4. भोज्य पदार्थ के खराब होने एवं भोजन द्वारा जनित बीमारियों पर लेख लिखिये।

Write an essay on spoilage of food & food borne infection.

अथवा

Or

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (किन्हीं दो)

(i) जैव निम्नीकरण

(ii) जीनोबायोटेक्स

(iii) औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुप्रयोग

Write short notes on : (any two)

(i) Biodegradation

(ii) Xenobiotics

(iii) Application of industrial microbiology

### इकाई-V

#### Unit-V

5. द्रव अपशिष्ट को समझाइये।

Write an essay on Liquid Waste Management.

अथवा

Or

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (i) गैसिफिकेशन
- (ii) अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि
- (iii) ठोस अपशिष्ट के गुण

Write short notes on :

- (i) Gasification
- (ii) Characters of Solid Waste
- (iii) Biological method of waste treatment